



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 740]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 1001(अ).—बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (त) के साथ पठित धारा 245ण की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, (2016) का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, नियुक्ति की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 में नियम 3 और 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“3. चयन समिति -- (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति एक चयन समिति, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ;

(ग) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ;

(घ) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से करेगी।

(2) समिति की बैठक की गणपूर्ति, चयन समिति के किन्हीं तीन सदस्यों, जिसके अंतर्गत समिति का अध्यक्ष भी है, से होगी।

(3) चयन समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए अपनी ही प्रकल्पना करेगी।

(4) समिति को किए गए निर्देश की गई तारीख से, 120 दिन से अनधिक की अवधि में, समिति केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करेगी।

4. अध्यक्ष के लिए नामों के पैनल की चयन रीति— (1) जब कभी अध्यक्ष की कोई रिक्ति विद्यमान है या और जब ऐसी रिक्ति उदभूत होती है या उसकी उदभूत होने की संभावना है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी रिक्ति के संबंध नामों के पैनल की सिफारिशों के लिए समिति को निर्देश कर सकेगी।

(2) समिति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किये जाने वाले नामों के पैनल में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु अपनी ही प्रक्रिया की प्रकल्पना करेगी।

5. उपाध्यक्ष के लिए नामों के पैनल की चयन रीति— (1) जब कभी उपाध्यक्ष की कोई रिक्ति विद्यमान है या और जब ऐसी रिक्ति उदभूत होती है या उदभूत होने की संभावना है, तो रिक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से परिचालित की जाएगी और आवेदकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे पूर्ण आवेदन उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजें।

(2) समिति, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों के पैनल में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु अपनी ही प्रक्रिया की प्रकल्पना कर सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता— किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे उस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है।

[फा. सं. क्यू-23016/6/2015-एड.आईसी(एएआर)]

एस. भौमिक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. सं. 100(अ) तारीख 21 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2016

G.S.R. 1001(E).—In exercise of the powers conferred by Section 245-O, read with sub-section (1) and clause (p) of sub-section 2 of Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Board hereby makes the following rules to amend the Authority for Advance Rulings (Procedure for Appointment as Chairman and Vice-Chairman) Rules, (2016), namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Authority for Advance Rulings (Procedure for Appointment as Chairman and Vice-Chairman) (Amendment) Rules, 2016

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authority for Advance Rulings (Procedure for Appointment as Chairman and Vice-Chairman) Rules, 2016, for rules 3 and 4, the following rules shall be substituted namely:-

“3. Selection Committee.— (1) The Chairman and Vice-Chairman of the Authority shall be appointed by the Central Government from a panel of names recommended by a Selection Committee consisting of the following members, namely:-

- (a) The Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of India as Chairman;
- (b) The Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue;
- (c) The Secretary to the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs;
- (d) The Secretary to the Government of India in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training.

(2) Any three members of the Selection Committee including the Chairman shall form a quorum for the meeting of the Committee.

(3) The Selection Committee shall recommend a panel of three names for appointment of Chairman and Vice-Chairman.

(4) The Committee shall make its recommendations to the Central Government, within a period not exceeding one hundred and twenty days from the date of reference made to the Committee.

4. Manner of selection of panels of names for Chairman.- (1) Whenever any vacancy of Chairman exists or as and when such vacancy arises or is likely to arise, the Central Government may make a reference to the Committee in respect of such vacancy for recommendations of a panel of names.

(2) The Committee shall devise its own procedure for selecting the persons for inclusion in the panel of names to be recommended for appointment as the Chairman.

5. Manner of selection of panels of names for Vice-Chairman.- (1) Whenever any vacancy of Vice-Chairman exists or as and when such vacancy arises or is likely to arise, vacancy shall be circulated through open advertisement and applicants shall be asked to forward complete application through Registrar of High Courts.

(2) The Selection Committee may devise its own procedure for selecting the persons from the applicants for inclusion in the panel of names to be recommended for appointment as the Vice-Chairman.

6. Medical fitness.- No retired person shall be appointed as a Chairman or Vice-Chairman unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose.”

[F. No. Q-23016/6/2015-Ad.IC(AAR)]

S. BHOWMICK, Under Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. Number 100(E), dated the 21st January, 2016.